



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 फाल्गुन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 229) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2014

---

सं0 3ए-2-वे0पु0-2/2014-1945  
वित्त विभाग

---

प्रेषक,

प्रभात शंकर,  
अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),  
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 26 फरवरी 2014

विषय:- चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से वेतन निर्धारण हेतु संकल्प सं0 660, दिनांक 08/02/1999 के द्वारा सम्यक् प्रावधान किया गया । राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए मूल कोटि का वेतनमान रू0 2550-3200/- स्वीकृत किया गया ।

2. राज्यकर्मियों की माँग को दृष्टिपथ में रखते हुए संकल्प सं0 2150, दिनांक 29/04/2005 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए केन्द्र के अनुरूप एस 2 वेतनमान रू0 2610-3540, वेतनमान रू0 2650-4000 को अक्षुण्ण रखते हुए, प्रथम वित्तीय उन्नयन के वेतनमान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी ।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं0 5961, दिनांक 17/08/2007 एवं संकल्प सं0 711, दिनांक 23/01/2008 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अपुनरीक्षित वेतनमान में रू0 1030/- तक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों का वेतन निर्धारण वेतनमान रू0 2610-3540 में होगा । पुनः रू0 1030 से

उपर के प्रक्रम पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों का वेतन रू0 2650-4000 के वेतनमान में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया ।

4. वित्त विभागीय संकल्प सं0 6680, दिनांक 19/04/2007 को निरस्त करते हुए संकल्प सं0 712, दिनांक 25/01/2008 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वैसे कर्मचारी जिनका वेतन पुनरीक्षण रू0 2610-3540 अथवा रू0 2650-4000 के वेतनमान में किया गया है उसे प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन माना जाएगा तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन 24 वर्षों के बाद रू0 2750-4000 के वेतनमान में अनुमान्य होगा ।

5. उपर्युक्त निर्णयों के संदर्भ में यह पाया जा रहा है कि चतुर्थवर्ग के कर्मियों के मामले में रू0 2610-3540 को या तो मूल कोटि का वेतनमान मानकर या दिनांक 31/12/1995 के बाद की तिथियों में रू0 1030 का वेतन प्रक्रम प्राप्त करनेवाले कर्मियों को यह वेतनमान अनुमान्य किया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के विपरीत है ।

6. अतएव अनुरोध है कि किसी भी स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प सं0 711, दिनांक 23/01/2008 एवं 712, दिनांक 25/01/2008 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत वेतन का निर्धारण नहीं किया जाय तथा त्रुटिपूर्ण रूप से किये गये वेतन निर्धारण को संशोधित करते हुए अधिक ली गयी राशि की वसूली एक किश्त में सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,  
प्रभात शंकर,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 229-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>